

Date: 21/11/2022

BSE Ltd.
Corporate Relationship Department,
P J Towers, Dalal Street
Mumbai – 400 001.
Scrip Code: 523558

<u>Sub</u>: Newspaper Advertisement for Publication of Information regarding 33rd Annual General Meeting of the Company and e-voting

Dear Sir,

Pursuant to the provisions of Regulation 30 read with Schedule III and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copies of newspaper advertisement published on November 20, 2022 in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi), regarding e-voting information for 33rd Annual General Meeting of the Company, in compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations and the Secretarial Standards of General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India.

The dispatch of Notice of 33rd Annual General Meeting of the Company, including e-voting information, along with the Annual Report for FY 2021-22 through electronic mode was completed on November 18, 2022.

This is for your information and records.

Thanking You

For SWISS MILITARY CONSUMER GOODS LIMITED

VIKAS JAIN COMPANY SECRETARY

Encl. as above

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

Central Bank of India "SERVING TO YOU SINCE 1911"

Central Bank of India

Regional Office, K.P. Complex, Near Hotel Park Plaza, Ferozepur Road, Ludhiana-141001

(Without Prejudice) APPENDIX IV (See rule 8(1)) POSSESSION NOTICE PHYSICAL POSSESSION (For Immovable Property/ies) Whereas the undersigned being the Authorised Officer of Central Bank of India under the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of Powers conferred under Section 13(12) read with Rules 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002. The Bank issued Demand Notice on the date mentioned against account and stated herein after calling upon the borrower(s)/guarantor(s) to repay the amount within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower(s)/guarantor(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the

borrower(s)/guarantor(s) and public in general that the undersigned has taken Physical Possession of the property/ies described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read within rule 8 of the Security Interest (Enforcement) rule 2002 on the dates mentioned against the account.

The borrower(s)/guarantor(s) in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property/ies. Any dealing with the property will be subject to the charge of Central Bank of India for the amount and interest thereon.

Description of

Property/ies

The borrower(s)/ guarantor(s) attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset(s).

Borrower/Guarnator		
B/O : Focal Point, Ludhiana		
Borrower : M/s A C		
Dhawan Hosiery through		
its Proprietor Sh. Rajnish		

Ludhiana-141008.

Name of the Branch

House No. 2020, measuring 67-1/2 sq. 13.05.2021 | 15.11.2022 | Rs. 16,77,825.17

yards., comprised in Khtata No. (Rupees Sixteen Lacs Seventy Seven 571/585, Khasra No. 1420/609-Thousand Eight Hundred Twenty Five Singh S/o Sh. Balbir 610/398/404, as per Jamabandi for the & Paisa Seventeen Only) on monthly year 2005-2006, situated Street No. 3, rests to be calculated form 30.04.2021 Singh, 711, Wait Ganj, Locality known as Mani Singh, Hadbast plus further interest at the contractual No. 77, G.T. Road, Ludhiana, Tehsil & rate plus other expenses & charges District Ludhiana and bounded as under: East: Kirpa Ram 14'-07", accured thereon.

Date of

Demand

Date of

Possession

Amount

Outstanding

West: Street 16'-06", North: Satpal Dhawan 39'-06", South: Vinod Dhawan 39'-06". As per registered sale deed wasika No. 19218 dated 11.03.2011, standing in the name of Sh. Rajnish Singh S/o Sh. Balbir SIngh.

Authorised Officer Date: 19.11.2022 Place: Ludhiana

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India "SERVING TO YOU SINCE 1911"

Central Bank of India

Regional Office, K.P. Complex, Near Hotel Park Plaza, Ferozepur Road, Ludhiana-141001

Date of

Demand

Notice

Property Measuring 101.11 Sq. Yards 02.08.2022 | 17.11.2022 | Rs. 2.33.618/-

comprising in Khata No. 347/323. (Rupees Two Lakh Thirty Three

2532/2373 Khatauni no. 525, 3453 Thousand Six Hundred Eighteen

Khasra No. 15//13/3/6-4, 15//14/8-0, only.) along with interest on T.L.@

15/2/5-7, 16/1/5-7, 17/1/5-7, 18/1/1/4- 8.70% p. a. on monthly rests to be

3, situated in Gurdaspura Basti calculated from 02.08.2022, and

Rasta 20" wide side 35", West: Plot of Baljeet Kaur side 35", North: Rasta

20" wide side 26", South: Empty plot side 26". Owned by Ms. Jaswinder

Total land 0 Bighe 3 Biswe 2.1/4 02.08.2022 17.11.2022 Rs. 8,85,117/-

West: Street side 70" 27 wide, North: Street side 60" 22" wide, South: Plo

OB-08B-0B Being 8/690 th share of 05.08.2022 17.11.2022 Rs. 6,51,114/-

Date of

Possession

Amount

Outstanding

(Without Prejudice) APPENDIX IV (See rule 8(1)) POSSESSION NOTICE SYMBOLIC POSSESSION (For Immovable Propertylies) Whereas the undersigned being the Authorised Officer of Central Bank of India under the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of Powers conferred under Section 13(12) read with Rules 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002. The Bank issued Demand Notice on the date mentioned against account and stated herein after calling upon the borrower(s)/guarantor(s) to repay the amount within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower(s)/guarantor(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower(s)/guarantor(s) and public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession of the property/ies described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read within rule 8 of the Security Interest (Enforcement) rule 2002 on the dates mentioned against the account.

The borrower(s)/guarantor(s) in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property/ies. Any dealing with the property will be subject to the charge of Central Bank of India

The borrower(s)/ guarantor(s) attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset(s).

Description of

Property/ies

Borrower/Guarnator
B/O : Nizam Road, Ludhiana
Borrower: Miss Navnee Kaur D/o Mr. Jasbir Sing and Mr. Jasbir Singh S/ Mr. Gurmail Sing

Name of the Branch

Property/Shop measuring 26-1/2 Sq 17.06.2022 16.11.2022 Rs. 10.84.842/-Yds. Bearing M.C.No.B-XXI-12476/1 (Rupees Ten Lakh Eighty Four comprised in khasra No.2039/737, Thousand Eight Hundred Forty Two 2040/737, Khewat No:222, Khatauni only.) along with interest @ 9.15% Guarantor: Mrs. No.371, as per Jamabandi for the p. a. on monthly rests to be Sandeep Kaur W/o Mr. years 2009-2010 situated within the calculated from 17.06.2022 and Jasbir Singh.

Revenue Estate of Village Dholewal, expenses thereon. H.B.No.174, locality known as Vishkarma Colony, St.No.10, Tehsil & District Ludhiana and the said property is bounded as under: East: Amrik Singh 8'-5", West: Street 12ft wide 8'-5", North: Gurcharan Singh 28'-0", South: Amarjit Singh 28'-0". Owned by Jasvir Singh S/o S. Gurmail Singh vide Sale Deed bearing Wasika No.3730 Dt:27-05-2004.

B/O : Sangrur Borrower: Mrs. Jaswinder Kaur W/o Mr. Gurcharan Singh and Mr. Gurcharan Singh S/o Mr. Bachan Singh. Guarantor Sangrur , bounded as under: East: expenses thereon. Mr. Gurjant Singh S/o Mr.

Bachan Singh. Kaur W/o Gurcharan Singh Vide wasika sale deed no. 2124 dated 23-09-2013 B/O: Sangrur

Borrower: Mrs. Baljit Biswasi Pukta is equal to 467 Sq. (Rupees Eight Lakh Eighty Five Kaur W/o Mr. Jagjit yards, comprised in Khata no. 225/288 Thousand One Hundred Singh, Mr. Jagjit Singh to 291 Khasra No. 88/0-3, 90/1-3, 91/0- Seventeen only) along with interest S/o Inder Singh and Mr. 11, 80/min 1-19, 89/min 0-5-13, 87/3- on T.L.@ 10.30% p. a. on monthly Karamiit Singh S/o Mr. 16, 86/min 0-15, 89/min 0-4-7 , rests to be calculated from Jagjit Singh Guarantor jambandi for the year 2005-06 situated 02.08.2022, and expenses thereon.

Bhagwan Das Ram Dass side 60". Owned by Ms. Baljit Kaur vide sale deed bearing wasika no. 4995 dated 29-03-2011

Mr. Suraj Bhan S/o Mr. Sohian Tehsil & Distt Sangrur, bounded as under; East: Sham Lal side 70 B/O: Malerkotla Borrower: Mr. Jagtar total area measuring 34B-10B (Rupees Six Lakh Fifty One Thousand One

Singh S/o Mr. Jarnail comprising in Khata Khatouni no. old Hundred Fourteen only) (Cent Mortpage (Term

Singh, Ms. Manjit Kaur 232/451, 280/479, 316/492, 356/507, Loan)-536986+FITL-114128 Jalong with interest W/o Mr. Jarnail Singh 399/554, 441/399 new 453/441/594, @(CentMortgage (TermLoan@10.30%+FITL@ Guarantor Mr. Mukesh khasra no. 1046/6-5, 1051/6-5, 1052/3- 8.70%), on monthly rests to be calculated from Sharma S/o Mr. Radhe Lal. 8, 2961/1053/3-5, 2963/1054/6-0, 05.08.2022, and expenses thereon. 2965/1055/0-5, 1047/2/2-2, 1053/1/1-5, situated at village Gowara, Tehsil Malerkotla, bounded as

under:- East: House of Skhuwinder Singh, West: Land of Daljit Singh, North: Land of Sukhwinder Singh South: Passage. Owned by Ms. Manjit Kaur W/o Jarnail Singh vide sale deed bearing wasika no. 2776 dated 05.12.2011 Date: 19.11.2022 Place: Ludhiana **Authorised Officer**

CAPITAL

PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING Aditya Birla Housing Finance Limited

Registered Office: Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat 362266 Branch Office: Aditya Birla Housing Finance Limited. 2nd Floor, RR Complex, Above IDFC First Bank, Geeta Gopal Chowk, Jagadhari Road, Ambala Cantt, Haryana - 133 001.

ABHFL: Authorized Officer Mr. Vikas Arora; Contact Number 9878177000 and Mr. Rohit Saini: Contact Number 9996229751 and Chirag Lokhande Contact Number- 9773758208 1. Auction Service Provider (ASP) M/s e-Procurement Technologies Limited-

Auction Tiger, Mr. Ram Sharma; Contact No. +91 8000023297 SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Asset(s) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with

provision to rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable properties mortgaged/charged to the Aditya Birla Housing Finance Limited/Secured Creditor, the possession of which has been taken by the Authorized Officer of Aditya Birla Housing Finance Limited/Secured Creditor, will be put to sale by auction on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 12-12-2022, for recovery of INR 19,19,190/- (Rupees Nineteen Lakh Nineteen Thousand One Hundred Ninety Only) as on 14-03-2022 and further interest and other expenses thereon till the date of

The reserve price will be INR 14,00,205.60/- (Rupees Fourteen Lakh Two Hundred Five and Sixty Paisa Only) and the Earnest Money Deposit (EMD) will be INR 1,40,020.56/- (Rupees

realization, due to Aditya Birla Housing Finance Limited/Secured Creditor from the Borrowers


ABADI BASANTI MAA COLONY , NEAR KRISHNA COLONY , BABYAL , AMBALA CANTT, AMBALA, 133001, HARYANA.

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Aditya Birla Housing Finance Limited/Secured Creditor's website i.e https://homefinance.adityabirlacapital.com/properties-for-auction-under-sarfaesi-act or

Date:20-11-2022

namely Yash Pal and Mrs. Aaina.

Aditya Birla Housing Finance Limited



कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एव निर्माण निगम, कोटद्वार (पौडी गढवाल), फोन नं0-01382-222208 ई-मेलः ee.cd.pjnkot@gmail.com

दिनांक : 19.11.2022 **"ई**—निविदा सूचना"

अधिशासी अभियन्ता. निर्माण शाखा. उत्तराखण्ड पेयजल निगम. कोटद्वार के पत्रांक 4167 / निविदा / 529 दिनांक 19.11.2022 द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद पीडी के निम्नलिखित विकासखण्डों हेत् पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्यों हेतु राज्य सरकार की वैबसाइट http/www.uktenders.gov.in के माध्यम से दिनांक 23.11.2022 से 08.12.2022 तक ई-निविदायें आमंत्रित की जा रही है, निविदाओं की नियम शर्तें उपरोक्त वेबसाईट से प्राप्त की जा सकती है:-

 विकासखण्ड जयहरीखाल — हण्डूल तल्ला (रिजी०) पे0यी०, हन्डूल मल्ला—गढगांव वा०स० पे0यी०, चिनवी पंत्रयोत, रामीसँरा (रिओ०) पंत्रयोत, कण्डोले पंत्रयोत, सिमलसँरा पंत्रयोत, डाबरी पंत्रयोत, मठाली पल्ली / वरली पंत्रयोत विकासखण्ड रिखणीखाल — नावे मल्ली पं0यो०, जुकरनिया वल्ला पं0यो०, घयेडगांव पं0यो०, बरखेत तल्ला पेठयोठ, डबराड पेठयोठ, दियोर पेठयोठ, चांदपुर पेठयोठ, सिरसवाडी पेठयोठ,

 विकासस्वण्ड वमकेश्वर — कोलसी पे०यो०, मझेडा पे०यो०, वडोली पे०यो०, ठींगावाज पे०यो०, सिरांस इस्ता / - अधिशासी अभियन्ता पेठयोठ,कसाण पेठयोठ, बाडियूँ पेठयोठ,

SWISS MILITARY CONSUMER GOODS LIMITED CIN: L51100DL1989PLC034797

Regd. Office: W-39, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi- 110020 Tel: 011-41067060 Email: investor@swissmilitaryshop.com website: www.swissmilitaryshop.com

NOTICE OF 33rd ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 33™ Annual General Meeting (AGM) of the members of the Swiss Military Consumer Goods Limited, is schedule to be held on Thursday, 15th December 2022 at 12:00 noon through VC/OAVM) facility in compliance with the provisions of the Companies Act. 2013. ('the Act') and Rules made thereunder, as amended from time and time, read with the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 5 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 19/2021 dated December 8, 2021, Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021 and Circular No. 2/2022 dated May 5, 2022 ("MCA Circulars") and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') has vide Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 2. 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 ("SEBI Circular") 'MCA Circular' and SEBI Circular collectively referred as "Circulars") to transact the businesses, as set out in the Notice of AGM.

n compliance with the above Circulars, the Notice of the AGM along with Annua Report 2021-22, have been sent only through electronic mode to those members of the Company, whose email address are registered with the Company/Depository Participant(s). Notice of the AGM along with Annual Report 2021-22 shall also be made available at the Investors Relations section of the Company's website a www.swissmilitaryshop.com, website of the Stock Exchange i.e., BSE Limited a www.bseindia.com and NSDL at www.evoting.nsdl.com.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act and Rule 20 of the Companie (Management and Administration) Rules. 2014, as amended and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations. 2015, as amended from time to time, read with the Secretarial Standard-2 on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Companies Secretaries of India, the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions as set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system) provided by NSDL. The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of he Company as on Thursday, December 08, 2022 ('cut-off date').

The remote e-voting period commences on Monday, December 12, 2022 at 9.00 a.m IST and will end on Wednesday, December 14, 2022 at 5.00 p.m. IST. During this period, the Members may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. Those Members, who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes again. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the

Company after the Notice has been sent electronically by the Company, and holds hares as on the cut-off date; may obtain the login ID and password by sendi request to **evoting@nsdLco.in**. However, if he/she is already registered with NSDL or remote e-voting, then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the votes. The Board of Directors have appointed Mr. Vikash Kumar Singh, Company Secretary

(Membership No ACS-42789) of M/s VK Singh & Co., Company Secretaries, as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting and remote e-voting process in a fair and n case of any queries pertaining toe-voting, members may refer to the Frequently Asked

Questions ("FAQs") and the e-voting manual available at https://www.evoting.nsdl.com under help section or contact at 1800 1020 990 and 1800 224 430. By the Order of

the Board of Directors For SWISS MILITARY CONSUMER GOODS LIMITED Sd/-Vikas Jain

Date: November 19, 2022 Place: New Delhi

"IMPORTANT" "FORM INC-26" [Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014) Whilst care is taken prior to BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION acceptance of advertising

(Incorporation) Rules, 2014 AND In The Matter of ZENLAYER NETWORKS INDIA PRIVATE LIMITED (CIN: U72200DL2019FTC355084) Having Its Registered Office at E-309, G/F, Old

No. 409, Hari Nagar Extn Part-2, Badarpur,

North East, New Delhi-110044

In the matter of the Companies Act, 2013,

Section 13(4) of Companies Act, 2013 and

Rule 30(5)(a) of the Companies

Notice is hereby given to the General Public that the aforesaid Company proposes to make an application to the Central Government under ection 13(4) of the Companies Act, 2013 seeking onfirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 01st day of November, 2022 to enable the company to change its Registered office from the "NCT of Delhi" to the "State of Maharashtra". Any person whose interest is likely to be affected

by the proposed change of the registered office If the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition Either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing the Investor Complaint Formor to the Regional Director, Northern Region B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110 003 within 14 days from the date of publication of this notice and also to the petitioner Company at its Registered office at the address

For Zenlayer Networks India Private Limited

TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD

demand notices as mentioned below calling upon the Borrowers to repay the amount

The borrower, having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower, in

particular and the public, in general, that the undersigned has taken possession of the

property described herein below in exercise of powers conferred on him under section

The borrower, in particular, and the public in general, are hereby cautioned not to deal with

the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the TATA

Capital Housing Finance Limited, for an amount referred to below along with interest

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act,

mentioned in the notice within 60 days from the date of the said notice.

thereon and penal interest, charges, costs etc. from date mentioned below.

13(4) of the said Act read with rule 8 of the said Rules.

in respect of time available, to redeem the secured assets.

Name of Obligor(s)/

Representative(s)

Account | Legal Heir(s)/Legal

Co Borrower)

Regd. Office: 11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park,

Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai-400013.

CIN No. U67190MH2008PLC187552

Amit Vijay Singh Date: 18/11/2022 (Director)

Company Secretary

copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.



Branch: Shastripuram,

The Authorized Officer of Bank of Baroda under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(2) read with Rule-8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice on the date mentioned against account and stated hereunder calling upon the borrowers/guarantors/mortagagors to repay the amount mentioned in the notice being together with further interest at contractual rate on the aforesaid amount and incidental expenses, costs, charges etc. within sixty days from the date of receipt of said notice The borrowers/guarantors/mortgagors having failed to repay the amount notice is hereby given to the borrowers/guarantors/mortgagors and the public in general that the undersigned has taken the possession of the properties described herein below in exercise to powers conferred on him/her under section 13(4) of the said act read with the Rule 8 of the said Rules on the date mentioned hereunder. The borrowers attention is invited to the provision of Sub-Section (8) of section - 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets. The borrowers/guarantors/mortgagors in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the properties. Any dealing with the properties will be subject to the charge of Bank of Baroda for the amounts and interest thereon. Details of the mortgaged Properties of which the possession had been taken is as follows. Date of Date of Amt. Due Name of the

Borrowers/ Guarantors	Details of the Mortgaged Properties		posse- ssion	December
Rekha W/o Bharat Singh Pal, Mr. Munendra Pal Singh and Mr.	All that part and parcel of the property standing in the name of Mrs. Rekha W/o Bharat Singh Pal consisting of MMIG Plot no-10, Sector-E, Sub-Sector-E-1, Shastripuram Yojana, Loha Mandi Ward, Tehsil & Distt Agra, Boundaries by:- East- L.S/S Existing, West-9.00 Mtr Wide Road, North- MMIG Plot no. 11, South-MMIG Plot no. 9	08.09.202	19.11.2022	Rs. 24,29,275/- + Interest & other expenses
Date:- 20.11.2022	Place: Agra	Ai	uthori	sed Officer

बैंक ऑफ़ बड़ीदा Bank of Baroda

Patel Nagar Branch (Erstwhile Vijaya Bank), 22. Patel Nagar, Lucknow-226005. Ph: 0522-2459510, 9335946593 Email: vjpate@bankofbaroda.com

POSSESSION NOTICE (For immovable property)

Whereas the under signed being the Authorised Officer of Bank of Baroda under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice, to the following borrowers/guarantors to repay the amount mentioned in the notice, with interest within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the below mentioned borrowers and the public in general, that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rule on the dates as mentioned below.

The borrower / guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Bank of Baroda for the amount/liability and interest and other expenses thereon due from the borrowers as mentioned here in below. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

SI. No.	Name & Address of the Borrower/Guarantors/ Date of Demand / Possession Notice	Description of immovable property	Outstanding Amt as per 13(2) (₹)
1.	Company through its Prop. Mrs. Gajala Khan W/o Mr. Asif Khan. Demand Notice: 17.01.2022	All that part and parcel of the property consisting of House no. D/468, Sector-D, L.D.A. Colony, Lucknow (UP)-226012, Area: 89.36 Sq.mtr. situated at Sector-D, L.D.A Colony, Kanpur Road, Lucknow. Owner: Mrs. Gajala Khan W/o Mr. Asif Khan. Bounded by: East: House No. D-134; West: 9.0 Mtr. Road; North: House No. D-467; South: House No. D-469	47,24,526.32+ interest & other expenses

Date: 20.11.2022; Place: Lucknow

Authorised Officer, Bank of Baroda

इण्डियन ओवरसीज बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)

INDIAN OVERSEAS BANK (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

RO: LUCKNOW | CO: CHENNAI POSSESSION NOTICE [Rule 8(1)]

Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (For Immovable Properties)

Whereas, the undersigned being the authorised officer of the Indian Overseas Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice as detailed here in below calling upon the borrower to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers/

properties described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on mentioned Date. The Borrowers/Mortgagors/Guarantors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the properties and any dealings with the properties will be subject to the charges of the Indian

Mortgagors/Guarantors and the public in general that the undersigned has taken Symbolic possession of the

Overseas Bank for the amounts and interest thereon mentioned against account herein below The Borrowers/Mortgagors/Guarantors attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, In respect of time available to them, to redeem the secured assets. Details as under:

Name and Address of Description of the Date of Demand Notice the Borrowers/ Immovable Properties Date of Possession Mortgagors/Guarantors O/S Amount Branch-Swaroop Nagar Branch, 112/351, Swaroop Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh 208002, E-mail: iob0686@iob.in

Borrower-: Mr. Irshad All that part and parcel of the property consisting of Flat No. 202 on Second Floor on Part of House No-88/328, Chamanganj, Kanpur, Husen S/o Late Ayyub Admeasuring 96.06 sq. mtr. Which is 9.14 mtr. Road side Rs. 20,83,255.14 within the registration District Kanpur. Mohd. Fazil S/o Mr. Irshad Husen R/o East-Open to Sky thereafter 9.14 mtr. Wide Road, West-97/145-A, Talaq Mahal, Kanpur Nagar

Flat Bounded:-North- 0.91 Mtr. Wide lane, South-Flat No. 201 Passage, Lift & Stair Case thereafter Flat No. 204 Entire premises:-North-0.91 Mt wide Road, South-Juj Bhag H. No. 88/328, East-9.14 Mt. wide Road, West-3.05 Mt wide Road

Authorised Officer, Indian Overseas Bank

28.04.2022

15.11.2022

as on 15.11.2022

+ further interest

at contractual

rates & rests,

charges etc.

्री वैक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda from (1) - days

Raj Nagar Branch C-98, RDC, Ghaziabad, UP - 201001 NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF

Place : Kanpur

FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 (SARFAESI ACT) In respect of loans availed by below mentioned borrowers / quarantors through BANK OF BARODA, which have become NPA with below mentioned balance outstanding on dates

mentioned below. We have already issued detailed Demand Notice dated as mentioned below Under Sec. 13(2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 by Registered Post / Speed Post / Courier with acknowledge due to you which has been returned undelivered / acknowledgment not received. We have indicated our intention of taking possession of securities owned on one of you as per Sec. 13(4) of the Act in case of your faciliare to pay the amount mentioned below within 60 days. In the event of your not discharging liability as set out herein above the Bank / Secured Creditor may exercise any of the right conferred vide section 13(4) of SARFAESI Act and while publishing the possession notice / auction notice, electronically or otherwise, as required under the SARFAESI Act, the Bank / Secured Creditor may also publish your photograph. Details are hereunder:-S **Demand Notice Date** Name of Borrowers/Guarantors/ Details of Secured Amount Outstanding Assets:

NO.	Date of NFA	
	Mr. Ranjit Singh (Borrower) & Mrs. Neha Chauhan (Co-Borrower) Address 1: House No A-2 2011 JJ Colony Madanpur, Khadar South Delhi, Delhi-110076, Address 2: EWS Flat No. 291A First Floor Nyay Khand 3 Indirapuram, Ghziabad, Uttar Pradesh-201014 Guarantor: Mrs. Rashmi Chauhan, Address: First Floor EWS Flat No-291 A, Nyay Khand-3 Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201014	as
	Loan Accounts have been classified as a NPA on 11-07-2022	

Date: 20.11.2022

The above mentioned Borrowers / Guarantors are advised (1) To collect the original notice from the undersigned for more and complete details and (2) To pay the balance outstanding

Demand Notice Dated Equitable mortgage of 26-08-2022 residential Property 1st floor Rs. 11,61,627.65 on 25-08-2022 (inclusive of interest upto 11-07-2022)

EWS Flat No. 291-A Nyay Khand - 3 Indirapuram Ghaziabad-201014

amount interest and costs etc. within 60 days from the date of notice referred to above to avoid further action under the SAKFAESI Ac Dated: 19-11-2022, Place: Ghaziabad Authorised Officer, BANK OF BARODA



AU SMALL FINANCE BANK LIMITED (A SCHEDULED COMMERCIAL BANK) Regd. Office: 19-A, Dhuleshwar Garden, Ajmer Road, Jaipur - 302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

APPENDIX IV [SEE RULE 8(I)] POSSESSION NOTICE

Whereas. The undersigned being the Authorized Officer of the AU Small Finance Bank Limited (A Scheduled Commercial Bank) under the "Securitization and

Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest [Act, 2002 (54 of 2002)] and in exercise of powers conferred under section 13 (12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice on the date as mentioned below calling upon the borrowers to repay the amount mentioned in the said notice within 60 days from the date of receipt of the said notice as per the details given in below table:

Mortgagor/Guarantor / Loan A/c No.	13(2) Notice Date & Amount	Description of Mortgaged Property	Possession Taken
(A/c No.) L9001070123228260 Bittoo Kumar (Borrower), Mithlesh (Co- Borrower)	17-May-22 Rs. 1729787/- Rs. Seventeen Lac Twenty-Nine Thousand Seven Hundred Eighty-Seven only as on 16-May-22	All that part and parcel of residential/commercial property Land/Building/ Structure and fixtures Property Sitauted At Municipal Corporation Plot No 41-42 Ugf Flr Front Side Kh No 1302 P N Vihar Pargna Ghaziabad Delhi Admeasuring 729 Sqft	16-Nov-22
(A/c No.) L9001060100745349 & L9001061124535025 Vinod Kumar (Borrower), Smt. Mithilesh (Co-Borrower)	06-Aug-22 Rs. 1198861/- Rs. Eleven Lac Ninety-Eight Thousand Eight Hundred Sixty-One Only & Rs. 290162/- Rs. Two Lac Ninety Thousand One Hundred Sixty-Two Only as on 05-Aug-22	All that part and parcel of residential/commercial property Land/ Building/ Structure and fixtures Property Situated At Khasra No 2301, Karhera Mohan Nagar, DIST- Ghaziabad, U.P. Admeasuring 3350 SQFT, East: PROPERTY OF SELLER, West: PROPERTY OF SELLER, North: ROAD 16 FEET WIDE, South: PLOT OF HARVIR AND OTHER	16-Nov-22
(A/c No.) L9001060821301742 Vinod Dairy Throught Its Proprietor Vinod Kumar, Vinod Kumar (Co- Borrower), Smt. Mithilesh (Co- Borrower)	06-Aug-22 Rs. 365052/- Rs. Three Lac Sixty-Five Thousand Fifty- Two Only as on 05-Aug-22	All that part and parcel of residential/commercial property Land/Building/ Structure and fixtures Property Situated At Freehold - PLOT.NO.80 KHASRA.NO.2301 VILL- KARHEDA PARGANA ,TE-&DIST- Ghaziabad U.P. Admeasuring 150 Sqyds, East: PROPERTY OF SELLER, West: PROPERTY OF SELLER, North: ROAD, South: PLOT OF HARVIR AND OTHER	16-Nov-22
(A/c No.) L9001060101005578 IDREESH (Borrower), MOHD IRSHAD	12-Jul-22 Rs. 763979/-	All that part and parcel of residential/commercial property Land/Building/ Structure and fixtures Property Sitauted At COMMERCIAL PLOT NO. 120.	18-Nov-22

The borrower having failed to repay the amount, therefore notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein above mentioned table in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said (Act-2002) read with Rule 8 of the said rule on the date mentioned in the above table. "The borrower's attention is Invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets." The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the AU Small Finance Bank Limited (A Scheduled Commercial Bank) for the amount and interest thereon mentioned in the above table. Authorised Officer AU Small Finance Bank Limited Date: 19-Nov-2022



Amount as per Possession **Demand Notice** Mr. Vikas (as Rs. 1495839/- (Rupees Fourteen Lakh 18-Nov-2022 Borrower) and Mr. Ninety Five Thousand Eight Hundred Ashok Kumar Alias Thirty Nine Only) under Loan Account Mr. Ashok Gupta (as No. TCHHF0362000100073427 and Rs. 4775865/- (Rupees Forty Seven Lakh Seventy Five Thousand Eight

Hundred Sixty Five Only) under Loan

Account No. TCHHL03620001000

73424 i.e. totaling to Rs. 6271704/- (Rs. Sixty Two Lakh Seventy One Thousand Date of

Seven Hundred Four Only) Description of Secured Assets/Immovable Properties: All piece & parcels of Built Up Upper Ground Floor (Without Roof & Terrace Rights) of Residential House bearing No. 1/7261, Admeasuring 105.35 Sq. Mtrs. (126 Sq. Yds.), Covered Area 94.81 Sq. Mtrs. Comprised in Khasra No. 234, Situated in Area of Village Babarpur, Abadi Shastri Marg, East Gorakh Park, Shahdara, Delhi - 110032, with all common amenities mentioned in sale deed. Boundaries: - East - Property of Others, West - Property of Others, North - Property of Others, South - Property of Others.

Sd/- Authorised Officer For Tata Capital Housing Finance Limited

(Co-Borrower), SMT. AMANA (Co-

Borrower)

12-07-22

Rs. Seven Lac Sixty-Three Thousand

New Delhi

Nine Hundred Seventy-Nine Only as on VILL.LAKADPUR, DIST.GHAZIABAD, UPAdmeasuring 100 SQ.YD

BLOCK NO.KHASRA NO 1674, KANCHAN PARK, PARGANA LONI,

financialexp.epap.in

One Lakh Forty Thousand Twenty and Fifty Six Paisa only). The last date of EMD deposit is 09-12-2022. The date for inspection of the said property is fixed on 08-12-2022 between 11:00 am to 04:00 pm. DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY Vaka Mauja Babyal, HADBAST NO. 63, TEHSIL & DISTT. AMBALA, KHEVAT NO. 141 KHATONI NO. 147, KHASARA NO. 18//24(7-17) AS PER JAMABANDI YEAR 2015-2016

https://sarfaesi.auctiontiger.net

Authorized Officer. Place: Ambala

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY) (As per Appendix IV read with rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002) Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the TATA Capital Housing Finance Limited., under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a

TATA

Loan

TCHHL0

0007342

4 &

TCHHF0

3620001

0007342

7

Date: - 20/11/2022

Place: - Delhi

Chola

चोलामंडलम इंवेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड निगमित कार्यालयः प्रथम तल, 'डेयर हाउस', नं. 2, एन.एस.सी. बोस रोड, चेन्नई-600 001 शाखा कार्यालयः एस.सी.ओ.–193, द्वितीय तल, सेक्टर–12, करनाल–132001 खा पता : एससीओ नं. 218—219, प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक का पृष्ठदिशा प्रवेश, सेक्टर—34ए, चंडीगढ़—160022 शाखा पता : (एससीओ–105), सेक्टर–17, प्रथम तल, पेट्रोल पंप के निकट, कोर्ट रोड, जगाधरी, यमुनानगर–135001

अधिग्रहण सूचना नियम 8(1) के अंतर्गत जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने मैसर्स चोलामंडलम इवेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां इसमें इसके उपरांत 'अधिनियम'' के रूप में संबोधित) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, मांग सूचनाएं निर्गत की थीं, जिनमें उधारकर्ताओं, जिनके नाम निम्न स्तंभ (ख) में निदर्शित किए गए हैं, को निम्न स्तंभ (घ) में उल्लेखित बकाया राषि का राशि पर ब्याज के साथ निम्न स्तंभ (ग) में विनिर्दिष्ट तिथियों पर, उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने

उधारकर्तागण निर्धारित बकाया राषि का प्रतिभूगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा उधारकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने, यहां इसमें निम्न स्तंभ (ड.) में विवरणित कंपनी के पास बंधककृत संपत्तियों का, उक्त नियमावली के अंतर्गत विरचित नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, निम्न स्तंभ (च) में अंकित संबंधित तिथियों पर, अधिग्रहण कर लिया है। उधारकर्ताओं को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि निम्न स्तंभ (ड.) में वर्णित संपत्तियों का लेन-देन न करें तथा इस प्रकार का कोई भी लेन-देन, ब्याज एवं अन्य शुल्कों के साथ निम्न स्तंम (घ) में अंकित एक राशि हेत् मैसर्स चोलामंडलम इंवेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13 (8) के अंतर्गत, उधारकर्तागण विक्रय की अधिसूचना से पूर्व समस्त लागतों, शुल्कों एवं व्ययों सहित संपूर्ण बकाया देयराशि का भुगतान करके प्रतिभूत परिसंपत्ति को छुड़वा सकते हैं।

क्र. सं.	उधारकर्ता / ओं का नाम एवं पता तथा ऋण खाता संख्या	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	अधिग्रहीत संपत्ति के विवरण	अधिग्रहण की तिथि
(क)	(ख)	(ग)	(ঘ)	(ৰ.)	(च)
1.	(ऋण खाता संख्या X0HEKHE00002449264 एव X0HEKHE00003517696) (स्व. सतीश कुमार मृतक, अपने विधिक उत्तराधिकारियों के माध्यम से) 1. विजय कुमार पुत्र ओम प्रकाश 2. पूनम पत्नी विजय कुमार 3. ज्योति रानी (पत्नी) 4. ओम प्रकाश (पिता) 5. ज्योति रानी (पत्नी) (सह—उधारकर्ता) (उपरोक्त यहां के निवासी) : मकान सं. ई—32, वार्ड सं. 2, हॉस्पिटल क्षेत्र, तहसील—नीलोखेड़ी, जनपद—करनाल 132117 (यहां के भी निवासी) : मकान सं. पी—38, वार्ड सं. 2, हॉस्पिटल क्षेत्र, तहसील—नीलोखेड़ी, जनपद—करनाल 132117। (यहां के भी निवासी) : रोहित ज्वैलर्स, दूकान सं. 323, ब्लॉक नं. 7, मेन मार्किट, ताराओरी, करनाल—132116	20/08/2022	रु. 24,82,510.77/- दिनांक 16.08.2022 के अनुसार, राशि पर भावी ब्याज के साध	मकान सं. ई–32 के समस्त वह भाग तथा अंश जिनकी माप 108 वर्ग गज है जो हॉस्पिटल क्षेत्र, वार्ड नं. 2, तहसील—नीलोखेड़ी, जनपद—करनाल में स्थित है, जो हस्तांतरण विलेख सं. 225 दिनांकित 09.05.2018 के अनुसार पंजीकृत है	14/11/2022
2.	(ऋण खाता संख्या X0HEYAM00002062830) उधारकर्ता एवं सह—उधारकर्तागण:— गिरधर गोपाल के सभी विधिक उत्तराधिकारी 1. किशश कुमारी (पत्नी) 2. गोपाल एंड सन्स ज्वैलर्स अपने स्वामी के माध्यम से (यहां के निवासी) : मकान सं. C-3, 458, वार्ड सं. 17, कल्याण नगर, जगाधरी, यमुनानगर—135001 3. किशश कुमारी (पत्नी) 4. गोपाल एंड सन्स ज्वैलर्स अपने स्वामी के माध्यम से (यहां के भी निवासी) : बुरिया गेट, बुरिया रोड, जगाधरी, यमुनानगर— 135001	10/08/2022	रु. 22,43,093.82/- दिनांक 09.08.2022 के अनुसार, राशि पर भावी ब्याज के साथ	दूकान सं. सी—3 / 116 / ए, माप 27.77 वर्ग गज, जो बुरिया गेट, बुरिया रोड, तहसील जगाधरी, जनपद यमुनानगर में स्थित है, जो विक्रय विलेख सं. 5121 दिनांकित 04.10.2010 के अनुसार पंजीकृत है	14/11/2022
3.	(ऋण खाता संख्या X0HEYAM00001796430) स्व. श्री विजय कुमार के सभी विधिक उत्तराधिकारी 1. वीणा रानी (पत्नी) 2. नीरज कुमार (पुत्र) 3. निशा रानी (पुत्रवधू) 4. मैसर्स प्रियांशी मिल्क डेयरी अपने स्वामी के माध्यम से (यहां के निवासी) : मकान सं. 101, गली सं. 4, आजाद नगर, यमुनानगर—135002 (यहां के भी निवासी) : मैसर्स प्रियांशी मिल्क डेयरी ग्राम—दरवा, भूखंड सं. 191, डेयरी कॉम्प्लेक्स, यमुनानगर—135002	10/08/2022	रु. 22,23,653.69/- दिनांक 09.08.2022 के अनुसार, राशि पर भावी ब्याज के साथ	मकान सं. बी-4/2210वी/ए/1, माप 130 वर्ग गज, जो गली सं. 4, आजाद नगर, तहसील-जगाधरी, जनपद- यमुनानगर में, नगर निगम यमुना नगर - जगाधरी की सीमाओं के अंदर स्थित है, जो विक्रय विलेख सं. 7612 दिनांकित 06.10.2015 के अनुसार पंजीकृत है	18/11/2022
		10	- 2	प्राधि प्राधि	कृत अधिकारी कुत स्थिते
स्थान : चंडीगढ़ / यमुनानगर / करनाल मैसर्स चोलामंडलम इंवेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड					

टाटा कैपिटल फाइनेशियल सर्विसेज लिमिटेड पंजी. कार्यालयः 11वां तल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुंबई-400013, **TATA** सीआईएनः यू67190एमएच2008पीएलसी187552

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 ("नियमावली") के नियम 3 के साथ परित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम २००२ (''अधिनियम'') की धारा 13(2) के अंतर्गत। एतदद्वारा एक सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित दायित्वधारकों / विधिक प्रतिनिधियों / विधिक उत्तराधिकारियो (ऋणधारकों) ने टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (टीसीएफएसएल) से प्राप्त मूलधन राशि और इस पर आकलित ब्याज तथा अन्य शुल्कों का प्रतिभुगतान करने में चूक कर दी है। अतः निम्न वर्णित ऋण खातों को टीसीएफएसएल की बकाया राशियों का प्रतिभुगतान करने में हयी चुक के अनुपालन में आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार अनिष्पादनीय परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। टीसीएफएसएल, अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (''अधिनियम'') के प्रावधानों के अनुसार, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत, निम्न वर्णित सांविधिक सूचनायें निर्गत कर चकी है, जिनमें ऋणधारकों को सूचनाओं के 60 दिवसों के अंदर भावी ब्याज एवं लागतों के साथ उक्त बकाया राशि का भुगतान करके भुगतान–दायित्व निर्वहन करने को कहा जाता है। भुगतान–दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहने पर, टीसीएफएसएल, निम्न विवरिणत संपत्तियों पर टीसीएफएसएल के पक्ष में ऋणधारकों द्वरा सुजित प्रतिभृति हित का प्रवर्तन करने सहित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत विवरणित समस्त अथवा किसी एक अधिकार का

ऋण खाता	दायित्वधारक(कों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक	एनपीए तिथि
संख्या	प्रतिनिधि(यों) के नाम	
20922590	1. श्रीमती शिखा शर्मा पत्नी श्री रौनक शर्मा, 2. श्री रौनक शर्मा पुत्र	03.10.2022
Restructured to Loan A/c No. TCFLA03860 00011077477	श्री ऋषि पाल शर्मा, 3. श्री ऋषि पाल शर्मा पुत्र स्व. हेत राम शर्मा, 4. श्री संजीव कुमार पुत्र स्व. हेत रात शर्मा, सभी यहां के निवासी : 3161, द्वितीय तल, हकीम बाका हौज काजी, चावड़ी बाजार, दिल्ली—110006, यहां पर भी : मकान सं. 3161, द्वितीय तल, पाठक	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि
and GECL Loan A/c No. TCFLA03590 00010891135	केदार नाथ, बल्लीमारन, दिल्ली, यहां पर भी : 3515, गली हकीम बाका, हौज काजी, चावड़ी बाजार, उत्तरी दिल्ली—110006, 5. मैसर्स बाथ लाउंज, अपनी स्वामिनी श्रीमती शिखा शर्मा के माध्यम से, 3228, गली पीपल महादेव, हौज काजी, उत्तरी दिल्ली—110006, यहां पर भी : भूतल, दूकान सं. 3493, मुख्य मार्ग, हौज काजी, चावड़ी बाजार, दिल्ली—110006, 6. एसबीआर सैनिटेशन, अपने स्वामी श्री ऋषि पाल शर्मा के माध्यम से, 3228, गली पीपल महादेव, हौज काजी, चावड़ी बाजार, दिल्ली—110006	रू. 3,92,50,807/– दिनांकित 12.10.2022

छत $\tilde{/}$ टेरेस अधिकारों के साथ, भूमि अधिमापन 284.27 वर्ग मीटर (लगभग), जो वार्ड सं. $ext{VI}$, मोहल्ला डासन, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल, वार्ड सं. VI, मोहल्ला डासन चरखेवालान, हौज काजी, दिल्ली—110006 में स्थित है जिसका अधिक वर्णन विक्रय विलेख दिनांकित 03.09.2014 एवं 04.09.2014 में किया गया है जो ऋषि पाल शर्मा के पक्ष में है। 31.03.2021

8617287	ŀ
(Restructure	li
d Loan	ŀ
Account No.	ŀ
TCFLA0386	L
0000109528	ŀ
77)	1
	11

थ्री राजीव कुमार, 2. श्रीमती रीना, 3. श्री नरेश, 4. श्री हरपाल अर्थात् हरपाल, सभी यहां के निवासी : मकान सं. 3, बहलोल. मांग सूचना के अनुसार नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301, यहां पर भी : मकान सं. आरएन रसूलपुर नवादा, सेक्टर-62, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर साझीदार के माध्यम से, भूखंड सं. 24, रसालपुर नवादा,

20 वर्ग मीटर है जो ब्लॉक आरएन, ग्राम सेक्टर 62, नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र, जनपद गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है जिसका अधिक विशिष्ट वर्णन पट्टा विलेख दिनांकित 21.06.2006 में किया गया है और जो श्री हरपाल के पक्ष में निष्पादित तथा इस प्रकार परिसीमित हैं: पूर्व— आर.एन. 23, पश्चिम— आर.एन. 25, उत्तर— सड़क

दक्षिण— आर.	एन. 21	
20991756	1. मैसर्स कृष्णा कार्गो सर्विसेज, 2. श्री बिन्नी शर्मा, 3.	
	श्रीमती मीना शर्मा, 4. श्रीमती सरिता शर्मा, 5. श्री मंगत राय	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि
l	शर्मा, सभी यहां के निवासी : गोपाल डेयरी, टी—180, शुक्र	
l	बाजार, उत्तम नगर, दिल्ली—110059	रु. 26,79,215 ∕ —
ı	11-117, 3771 117, 14771 110000	दिनांकित 29.10.2022

है, जो ईजमेंट अधिकारों के साथ है, जिसका अधिक विशिष्ट वर्णन विक्रय विलेख दिनांकित 31.10.2014 में किया गया है और जो श्रीमती मीना शर्मा के पक्ष में निष्पादित तथा इस प्रकार परिसीमित हैं: पूर्व- भूखंड सं. 180 का भाग, पश्चिम- भूखंड सं. 181, उत्तर-सड़क 20 फुट, दक्षिण- गली 10 फुट

7512081
(Restructured
loan A/c
TCFLA03860
00010951463)

ीप सिंह, ३. सुश्री सुरेंदर कौर, ४. श्रीमती कृष्णा वंती, ५. मैसर्स नानक एंटीना, सभी का पता : 78 / 6, ए ब्लॉक, नेहरू जैन वाली गली, दिलशाद गार्डन, झिलमिल, दिल्ली-110095

07.08.2022 मांग सूचना के अनुसार बकाया रु. 2,22,85,430 / −

बकाया राशि

दिनांकित

11.11.2022

प्रितिभूत परिसंपित्तियों / अचल संपित्तियों के विवरण : निर्मित संपित्ति सं. 78 / 6–ए, माप 152 वर्ग गज, खसरा सं. ४६५ / २३२ / ४४३, खेवट सं. ३ में से, दिलशाद गार्डन सिटी, ग्राम–झिलमिल ताहिरपुर के क्षेत्र, ब्लॉक–वेस्ट

के रूप में विदित कॉलोनी, क्लास–ए, दिलशाद गार्डन, दिल्ली में स्थित, जिसका अधिक विशिष्ट वर्णन विक्रय विलेख दिनांकित 09.11.2011 में किया गया है और जो श्रीमती कृष्णा वंती के पक्ष में निष्पादित तथा इस प्रकार परिसीमित हैं: पूर्व- अन्य की संपत्ति, पश्चिम- अन्य की संपत्ति, उत्तर- गली 18 फूट चौड़ी, दक्षिण-अन्य की संपत्ति उपरोक्त मांग सूचनाओं की प्रभावोत्पादक सेवा सूनिश्चित करने की दुष्टि से हम एतदद्वारा सार्वजनिक सूचना के माध्यम

अंतर्गत निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के 60 दिवसों के अंदर उक्त वर्णित देनदारियों का निर्वहन करें। ऐसा करने में विफल रहने पर टीसीएफएसएल, अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत किसी एक अथवा समस्त अधिकारों का प्रयोग करेगी। प्रासंगिक रूप में ऋणधारकों को भी अधिनियम की धारा 13(13) के निबंधनों के अनुसार सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे

दिनांक : 20.11. 2022 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, स्थान : दिल्ली/राराक्षे



राज नगर शाखा

सी–98, आरडीसी, गाजियाबाद, यू.पी. – 201001

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट) 2002 के अंतर्गत प्रतिभृतिहित नियम 2002 के नियम 13(2) के अन्तर्गत यह सूचना जारी की जाती है।

बैंक ऑफ बड़ौदा से प्राप्त किये गये ऋण जो कि एन पी ए हो चुके हैं व जिसमें निम्न वर्णित दिनांक को निम्नवर्णित बकाया राशि शेष थी, उसकी विस्तृत मांग सूचना निम्नवर्णित ऋणियों एवं जमानतदारों को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभुतिकरण एवं पुनर्गठन एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत निम्न वर्णित दिनांकों को पंजीकृत डाक पावती सहित /स्पीड पोस्ट / कोरियर द्वारा आप सभी को भेजी गयी थी, जिसकी पावती प्राप्त नहीं हुई / जो बिना तामील वापस प्राप्त हो गयी है। मांग सूचना निम्नांकित दिनांकों में हमने आशय को स्पष्ट कर दिया था, कि आपके द्वारा सूचना में दर्शायी राशी 60 दिनों के अन्दर जमा नही करायी गयी तो उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार बैंक में बंधक सम्पत्तियाँ जो कि निम्नलिखित निम्नानुसार है:-

ऋाणया / जमानतदारा के नाम हं, उनका आधिपत्य ले लिया जायेगा और कब्जा सूचना / इ—नीलमी सूचना में कर्जदार व निम्नानुसार है:-	गारटरा की फोटा प्रकाशित की	जायंगा । बकाया साश का विवरण
कर्जदार / गारन्टर के नाम एनपीए की तारीख	मांग सूचना की तारीख बकाया राशि	सिक्योर्ड आस्तियों का विवरण
श्री रंजीत सिंह (उधारकर्ता) और श्रीमती नेहा चौहान (सह—उधारकर्ता) पता 1: मकान नं. ए—2 2011 जेजे कॉलोनी मदनपुर, खादर दक्षिणी दिल्ली, दिल्ली—110076, पता 2: ईडब्ल्यूएस पलैट नं. 291ए प्रथम तल, न्याय खंड 3 इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश—201014 गारंटर: श्रीमती रश्मी चौहान, पता: प्रथम तल, ईडब्ल्यूएस फ्लैट नं. 291 ए, न्याय खंड—3 इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर	मांग सूचना की तारीख 26-08-2022	साम्यिक बंधक रिहायशें सम्पत्ति प्रथम तल, ईंडब्ल्यूएस फ्लैट नं. 291-ए, न्याय खंड - 3. इन्दिराप रम

प्रदेश-201014

ऋण खाते को एनपीए घोषित करने की तिथि 11-07-2022

एवं खर्चे आदि सहित मांग सूचना की दिनांक के 60 दिनों के भीतर जमा करें ताकि सरफेसी अधिनियम के तहत अग्रिम कार्यवाही से बच सकें। प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बडौदा दिनांक : 19.11.2022, स्थान : गाजियाबाद

> प्रपत्र-6 [विनियम -15(1)(घ)] ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरटी-2)

प्रथम तल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर-17ए, वंडीगढ़, (ततीय और चतुर्ध तल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित) वाद सं. एमए/17/2017 Exh. No. 119

भारतीय स्टेट बैंक बेवर्ली हिल्स एवं अन्य

बेवर्ली एवं अन्य, मैसर्स बेवर्ली हिल्स इसके प्रोपराईटर स्वर्गीय श्री एस.एल. चोपड़ा, डी-133, साकेत, नई

(2) श्री अशोक लाल चोपड़ा (श्री ए.एल. चोपड़ा) उर्फ ए.के. चोपड़ा पुत्र स्वर्गीय श्री एस.एल. चोपड़ा, निवासी चोपड़ा फार्म हाउस, मैत्री भवन के पास, 32वें माइल स्टोन के सामने, गांव सिलीखोरा, गुड़गांव हरियाणा (3) श्री ए.के. चोपड़ा उर्फ श्री अशोक लाल चोपड़ा पुत्र स्वर्गीय श्री एस.एल. चोपड़ा, निवासी डी-133, साकेत नई दिल्ली - 110017, <u>और:</u> श्री ए.के. चोपड़ा उर्फ श्री अशोक लाल चोपड़ा पुत्र स्वर्गीय श्री एस.एल. चोपड़ा, चोपड़ा फार्म हाउस, मैत्री भवन के पास, 32वें माइल स्टोन के सामने, विलेज स्ट्लीखोर, गुड़गांव हरियाणा,

(4) नाना चोपड़ा पुत्र /पुत्री स्वर्गीय श्री एस एल चोपड़ा, निवासी चोपड़ा फार्म हाउस, मैत्री भवन के पास, 32वें माइल स्टोन के सामने, ग्राम सिलीखोरा गृडगांव हरियाणा

(5) श्रीमती एस.एल. चोपड़ा फ्ली स्वर्गीय श्री एस.एल. चोपड़ा, निवासी चोपड़ा फार्म हाउस, मैत्री भवन के पास, 32वें माइल स्टोन के सामने, गांव सिलीखोर गुडगांव हरियाणा

जबकि इस न्यायाधिकरण में आवेदन किया गया है। जिसकी प्रति एतदुसह संलग्न है। आपको नोटिस दिया जाता है कि मांगी गई राहत क्यों मंज़र नहीं की जानी चाहिए। ध्यान दें कि उक्त आवेदन की सुनवाई न्यायाधिकरण द्वारा 02-12-2022 को पूर्वा. 10.30 बजे अथवा न्यायाधिकरण की सुविधा के अनुसार उसके तत्काल बाद किसी समय की जाएगी।

 आपसे उपरोक्त समय पर स्वयं अथवा प्लीडर /एडवोकेट, जो सम्यक अनुदेशित किया गया हो. के माध्यम से उपस्थित होने तथा अपना जवाब, यदि कोई, दाखिल करने की मांग की जाती है। ध्यान दें कि यहां ऊपर वर्णित दिन आपकी उपस्थिति में चुक की दशा में, सुनवाई और निर्धारण की कार्यवाही आपकी अनुपस्थिति में की जाएगी।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर लगाकर 27-09-2022 को दिया गया।

अधिकारी के हस्ताक्षर सम्मन जारी करने हेतु अधिकृत



टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः 11वां तल, टॉवर ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुंबई-400013, सीआईएन नं. यु67190एमएच2008पीएलसी 187552

अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार) जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत एक मांग सूचना, निम्न वर्णितानुसार निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ताओं को सचना में अंकित राशि का, उक्त सचना की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, प्रतिभगतान

ऋणकर्ता निर्धारित देयराशि का प्रतिभूगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को सामान्य रूप में सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त षक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, अधिग्रहण कर लिया है ऋणकर्ता को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि सम्पत्ति का लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, यहां इसमें निम्न संदर्भित एक राशि तथा निम्नांकित तिथि से इस राशि पर आकलित ब्याज एवं दांडिक ब्याज शुल्कों, लागतों, इत्यादि हेतु टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा। ऋणकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

मांग सूचना के अनुसार राशि

ऋण दायित्वधारक(कों) / विधिक ।

	खाता संख्या	उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम		तिथि	
	TCHHL0 3620001 0007342 4 & TCHHF0 3620001 0007342 7	श्री विकास (ऋणकर्ता के रूप में) तथा श्री अशोक कुमार अर्थात् श्री अशोक गुप्ता (सह—ऋणकर्ता के रूप में)	रु. 14,95,839 / — (रुपये चौदह लाख पिचानबे हजार आठ सौ उनतालिस मात्र) की एक राशि ऋण खाता सं. TCHHF0362000100073427 के अंतर्गत देय—भुग्तेय है तथा रु. 47,75,865 / — (रुपये सैंतालिस लाख पिचहत्तर हजार आठ सौ पैंसठ मात्र) की एक राशि ऋण खाता सं. TCHHL0362000100073424 के अंतर्गत देय—भुग्तेय है अर्थात् कुल रु. 62,71,704 / — (रुपये बासठ लाख इकहत्तर हजार सात सौ चार मात्र)		
	प्रतिभूत परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों का विवरण : आवासीय मकान सं. 1 / 7261 के निर्मि ऊपरी भतल (छत एवं टेरेस अधिकारों के बिना) के समस्त भाग तथा अंश अधिमापन 105 :				
- 1	■ (3) 4(1) +(Π)	M 1300 AA CAA AIIAW	गरा क ।बना। क समस्त माग तथा अश आ	24147 105 35	

। ऊपरा भूतल (छत एवं टरस आधकारा के बिना) के समस्त भाग तथा अश, आधमापन 105.35 वर्ग मीटर (126 वर्ग गज), आवृत्त क्षेत्रफल 94.81 वर्ग मीटर, खसरा सं. 234 में समाविष्ट, ग्राम–बाबरपुर के क्षेत्र, आबादी शास्त्री नगर, पूर्वी गोरख पार्क, शाहदरा, दिल्ली–110032 में स्थित, विक्रय विलेख में संवर्णित समस्त साधारण सुख-सुविधाओं के साथ। परिसीमायें : पूर्व- अन्य की संपत्ति, पश्चिम– अन्य की संपत्ति, उत्तर– अन्य की संपत्ति, दक्षिण– अन्य की संपत्ति।

दिनांक : 20-11-2022 हस्ता./— प्राधिकृत अधिकारी स्थान : दिल्ली कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

स्विस मिलिटी कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड CIN : L51100DL1989PLC034797 पंजीकृत कार्यालय: डब्ल्यू-39, ओख़्ला औद्योगिक क्षेत्र, फेज ॥, नई दिल्ली - 110020

दूरभाष: 011-41067060, ईमेल: investor@swissmilitaryshop.com, वेबसाइट: www.swissmilitaryshop.com 33वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा ई-वोटिंग की जानकारी

एतद्वारा सुचित किया जाता है कि सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक अप्रैल के साथ पठित 13, 2020, परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, परिपत्र संख्या 02/202⁻ दिनांक 13 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या 19/2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021, परिपत्र संख्या 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021 और परिपत्र संख्या 2/2022 दिनांक 5 मई, 2022 (''एमसीए परिपत्र'') के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और समय-समय पर यथासंशोधित उसके तहत निर्मित नियमों के अनुपालन मं और भारतीय प्रतिभृत एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्र SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, परिपत्र SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 और परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 ('सेबी परिपत्र') ('एमसीए परिपत्र' तथा सेबी परिपत्र को सामूहिक रूप से 'परिपत्र' सन्दर्भित) के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों को लेन-देन करने के लिए स्विस मिलिट्टी कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड के सदस्यों की 33वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरुवार, 15 दिसंबर 2022 को दोपहर 12:00 बजे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी। . उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम रं

कम्पनी उन सभी सदस्यों के पास भेजी गयी है जिनके ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंटस के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 कम्पनी की वेबसाइट www.swissmilitaryshop.com के Investor Relations खण्ड में, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध कराई जायेगी।

अधिनियम की धारा 108 और यथासंशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के प्रावधानो तथा भारत के कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक -2 (एसएस-2) के साथ पठित भारतीय प्रतिभति और विनिमय बोर्ड (सचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार, सदस्यों को एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का उपयोग करते हुए एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है। सदस्यों के वोटिंग अधिकार गुरुवार, 08 दिसंबर, 2022 ('कट-ऑफ तिथि') को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वार धारित इक्विटी शेयरों के अनपात में होंगे।

रिमोट ई-वोटिंग की अविध सोमवार, 12 दिसंबर, 2022 को सुबह 9.00 बजे भा.मा.स. शुरू होगी और बुधवार, 14

दिसंबर, 2022 को शाम 5.00 बजे भा.मा.स. समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपन वोट डाल सकते हैं। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। वे सदस्य, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे एजीएम के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट दे दिया है, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं/शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें दुबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और कंपनी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है, और कट-ऑफ तिथि तक शेयर रखता है; evoting@nsdl.co.in प अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, यदि वह रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से ही पंजीकृत है, तो वह वोट डालने के लिए अपने मौज़दा युजर आईडी और पासवर्ड

निदेशक मंडल ने मेसर्स वीके सिंह एंड कंपनी के कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या एसीएस-42789) श्री विकास कुमार सिंह को ई-वोटिंग और रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य httpsy/www.evoting.nsdl.com पर हेल्प खण्ड

के तहत उपलब्ध Frequently Asked Questions ("FAQs") तथा e-voting manual का संदर्भ ले सकते हैं या 1800 1020 990 और 1800 224 430 पर संपर्क कर सकते हैं। निदेशक मंडल के आदेश सं कृते स्विस मिलिटरी कन्ज्यूमर गुड्स लिमिटेड

स्थान : नर्ड दिल्ली

विकास जैन तिथि : 19 नवम्बर, 2022 कम्पनी सचिव

₹. 11,61,627.65 दिनांक 25.08.2022 तक (दिनांक 11.07.2022 तक ब्याज की गणना)

3. इन्दिराप्रम गाजियाबाद-201014 मे उक्त वर्णित ऋणियों 🖊 जमानतदारों को सलाह है कि (1) अधिक एवं विस्तृत जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी से मूल नोटिस प्राप्त कर लें (2) मांग सूचना में दर्शायी गयी बकाया राशि ब्याज

दक्षिण रेलवे दक्षिण रेलवे के चेन्नई मडल के पास उपलब्ध मानि

रेलवे ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन्स एंड एसेट्स" हेत् अभिरूचि की अभिव्यक्ति सूचना सं. एम/सी, 490/फ्राइट मार्किटिंग, दिनांकित 17.11.2022 भारत के राष्ट्रपति के लिये एवं उनकी ओर से वरिष्ठ मंडलीय वाणिज्यिक प्रबंधक / चेन्नई मंडल, दक्षि रेलवे, चेन्नई-3 द्वारा "दक्षिण रेलवे के चेन्नई मंडल के पास उपलब्ध मार्किटिंग रेलवे ट्रांसपोर्ट सोल्यशन्य

एंड एसेट्स" हेत् अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है। इच्छुक पक्षकार ''मार्किटिंग रेलवे प्रोडक्ट्स / सर्विसेज हेत् ईओआई'' के अक्षरों से शीर्षांकित तथा वरिष्ट मंडलीय वाणिज्यिक प्रबंधक, चेन्नई मंडल, दक्षिण रेलवे, चेन्नई-3 को संबोधित एक पृथक मोहरबंद लिफाफे में अपनी प्रोफाइल तथा अन्य संबंधित विवरणों / प्रलेखों के साथ अपने प्रस्तावों को रखकर पंजीकृत डाक/कूरियर के माध्यम से प्रेषित कर/व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होकर जमा कर/ईमेट से भेजकर इस प्रकार प्रस्तुत कर सकता है ताकि ये प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास 16.12.2022 क 15.00 बजे तक पहुंच जाएँ। वैकल्पिक रूप में प्रस्ताव srdcm@mas.railnet.gov.in पर मेल किये ज सकते हैं। किसी भी पूछताछ के लिये कृपया इनसे संपर्क करें : 6374713242

ईओआई के विवरण, वेबसाइट http://sr.indianrailways.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते अथवा सभी कार्यदिवसों पर कार्यालय समय के दौरान वरिष्ठ मंडलीय वाणिज्यिक प्रबंधक / चेन्नई मंडल दक्षिण रेलवे, चेन्नई-3 के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

वरिष्ठ मंडलीय वाणिज्यिक प्रबंधक चेळाई मंडल, चेळाई-3

Follow us on : twitter.com/GMSRailway

दक्षिण रेलवे

ई—निविदा सूचना सं: ई/ई.29/ |/2022/10 दिनांकित 17.11.2022 कार्य निविदाओं'' के लिये ई–निविदा हेतु लॉग ऑन करने के इच्छुक बोलीदाताओं को ई–निविदा वेबसाइट

http://www.ireps.gov.in पर नामांकित होने की आवश्यकता है तथा केवल ऑनलाइन निविदायें स्वीकार्य होंगी बोली प्रतिभृति के मृल्य का भृगतान, आईआरईपीएस पोर्टल पर उपलब्ध, केवल ऑनलाइन भृगतान माध्यमों जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड, इत्यादि के माध्यम से किया जाना चाहिये। यह उत्तरदायित्व बोलीदाताओं का है कि वे ई–निविदा में प्रतिभागिता करने के लिये अनिवार्य डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेटस प्राप्त कर लें। संपूर्ण विवरण तथा निविदा प्रलेख "http://www.ireps.gov.in" पर उपलब्ध होंगे। अन्य विवरणों, नियमों एवं शर्तों के लिये निविदाकर्ताओं को सलाह है कि वे अपलोडेड प्रलेखों का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त के संबंध ग मस्त अनुशेष / शुद्धिपत्र, समय–विस्तारण, स्पष्टीकरण, इत्यादि केवल वेबसाइट पर अपलोड किये जायेगे तः पृथक रूप में समाचारपत्रों में प्रकाशित नहीं होंगे। बोलीदाताओं को, उक्त के संबंध में स्वयं को नवीनतम जानकारी ने अद्यतन रखने के लिये, नियमित रूप में वेबसाइट देखनी होगी। निविदाकर्ताओं को निविदा खोलने के समय पर. कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है. ऐसा इसलिये

क्योंकि वे खुल चुकी निविदाओं की स्थिति को आईआरईपीएस पर ऑनलाइन देख सकते हैं। कार्य का नाम : पेरंबर कैरिज वर्कशॉप—डीलक्स शॉप्स—कॉरिजन मरम्मत अथवा बैटरी चार्जर एवं अंडरस्लंज 2! केवीए इंवर्टर एम.एस. एन्क्लोजर प्रमात्रा-620 नग- वैद्युत व्यवस्थायें।

Finadi Ci. (4 Kina	निविदा मूल्य	अंतिम तिथि एवं समय	अवधि			
ई / ई.29 / 1 / 2022 / 10 दिनांकित 17.11.2022	17,92,420.00	12.12.2022 को 15.00 बजे				
उप मुख्य वैद्युत अभियंता, कैरिज वक पेरंबूर, चेन्नई—600 02						

Follow us on : T twitter.com/GMSRailway



विकास माग शाखा ए—45 /45 , लक्ष्मी नगर, गुरु नानक पुरा, मधुबन चौक के पास, विकास मार्ग, नई दिल्ली — 110092

(सागर भास्कर तराई)

कब्जा - सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के तहत बैंक ऑफ इंडिया के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर दिनांक 30.08.2022 को मांग नोटिस जारी किया गया जिसमें उधारकर्ता मैसर्स टीएस गारमेंट्स अपने मालिक श्री बलिराम सिंह के माध्यम से, को नोटिस में उल्लिखित राशि रु. 46,90,794.03 + ब्याज (रुपये छियालीस लाख नब्बे हजार सात सौ चौरानवे और तीन पैसे + ब्याज) उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए

उधारकर्ता द्वारा राशि का भूगतान करने में विफल रहने पर, उधारकर्ता और आम जनता को एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित स्टॉक्स का 17 नवम्बर, 2022 को प्रतीकात्मक

विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को एतद्दवारा चेतावनी दी जाती है कि वे स्टॉक बुक ऋण के साथ कोई भी लेन-देन न करें और स्टॉक बुक ऋण के साथ कोई भी लेन-देन करने पर विकास मार्ग शाखा (ए-45-46, लक्ष्मी नगर, मधुबन चौक के पास, विकास मार्ग, दिल्ली110092) को रु. 47, 02,004.03 और उस पर व्याज के लागत के प्रभार के अधीन

प्रतिभृति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के तहत उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है। अचल संपत्ति / स्टॉक्स का विवरण

प्लॉट नंबर 31, एफ.आई.ई. प्रथम तल, पटपडगंज औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110092 में स्टॉक और बही ऋण के दृष्टिबंधक वाले स्टॉक के सभी हिस्से और अंश ।

दिनांक : 17.11.2022 प्राधिकृत अधिकारी (बैंक ऑफ इंडिया) स्थान : नई दिल्ली

FEDERAL BANK

YOUR PERFECT BANKING PARTNER FEDERAL TOWERS, H-362, SECTOR-22, NOIDA-201301, UTTAR PRADESH CIN: L65191KL1931PLC000368 Website: www.federalbank.co.in

PUBLIC NOTICE FOR GOLD AUCTION

Notice is hereby given to the public in general and the account holders in

particular that e-auction of the pledged gold omaments in the below mentioned account/s will be conducted by Federal Bank Ltd. on 14/12/2022 through online portal, https://gold.samil.in. Interested buyers may log on to the auction portal or contact the Bank at Federal Towers, H-362, Sector-22, Noida-201301, Uttar Pradesh for further information. In case e -auction is not materialised for any reason on the date mentioned above, with respect any or all items of the pledged ornaments, Bank shall be conducting private sale of the items on any subsequent date/s without further notice.

Branch Name	Name	(Rupeek) Loan Account No.	
Federal Towers/Sector-22 Noida	Mritunjay Kumar	13406100108301	
Federal Towers/Sector-22 Noida	Aman Singh	13406100109358	
Federal Towers/Sector-22 Noida	Rohit Baisla	13406100109143	
Federal Towers/Sector-22 Noida	Gaurav Gyan Raj	13406100108491	
Federal Towers/Sector-22 Noida	Gaurav Joshi	13406100108608	
Federal Towers/Sector-22 Noida	Mohit Joshi	13406800000097	
Federal Towers/Sector-22 Noida	Prashansa Soni	13406100109937	
Federal Towers/Sector-22 Noida	Shubham Rathore	13406800000337	
Federal Towers/Sector-22 Noida	Ajay Poddar	13406100110059	
Federal Towers/Sector-22 Noida	Rishi Agarwal	13406800000469	
Federal Towers/Sector-22 Noida	Sandeep Kumar	13406800000576	
Federal Towers/Sector-22 Noida	Amit Ojha	13406800000584	
Federal Towers/Sector-22 Noida	Vijit Panwar	13406800003711	
Federal Towers/Sector-22 Noida	Vijit Panwar	13406800000634	
Federal Towers/Sector-22 Noida	Ankur Gandhi	13406800000873	
Federal Towers/Sector-22 Noida	Naresh Kumar Bhati	13406100111263	
Federal Towers/Sector-22 Noida	Yogesh Singh	13406800001053	
Federal Towers/Sector-22 Noida	Sabhajeet Singh	13406800001095	
Federal Towers/Sector-22 Noida	Anil Kumar Patel	13406800001111	
Federal Towers/Sector-22 Noida	Swami Nath Pandey	13406800001129	
Federal Towers/Sector-22 Noida	Harvinder Singh	13406800001202	
Federal Towers/Sector-22 Noida	Kushal Chauhan	13406800003117	
Federal Towers/Sector-22 Noida	Kushal Chauhan	13406800001269	
Federal Towers/Sector-22 Noida	Swami Nath Pandey	13406800001293	
Federal Towers/Sector-22 Noida	Khushbu Chaudhary	13406800001251	

Sd/- Authorised Officer, For The Federal Bank Ltd.

Sector-22, Federal Towers, Noida, U.P.

Place: NOIDA, U.P.

Dated: 20.11.2022

Criminal Courts, Ludhiana

next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on https://districts.ecourts.gov.in/ludhiana Kotak Mahindra Bank Ltd Zaheer Abas CNR NO: PBLD03-036230-2019

ublication Issued To: Zaheer Abas

Address- S/o Not Known R/o 210 K Chaudrain Sirsi Sambhal Manther Moradabad Sambh 244302 Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this roclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 21-12-2022 at 10:00 a.m. or within 30 days from the tate of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence, for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_ notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

Criminal Courts, ludhiana n The Court Of Ms Divya Sharma JMIC Date: 21-12-2022 udhiana

next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana CNR NO: PBLD03-036220-2019 Kotak Mahindra Bank Ltd

Lochan Singh Publication Issued To: Lochan Singh Address- S/o Not Known R/o Govind Nagar Hanuman Murti Chouraha Moradabad 244001 Whereas it has proved to the satisfaction

of this court that you, the above named ccused/accused persons can't be served the ordinary way of service. Hence this roclamation under 82 of code of criminal rocedure is hereby issued against you ith a direction that you should appear ersonally before this court on 21-12-2022. t 10:00 a.m. or within 30 days from the ate of publication of this proclamation. ake notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence, for details logon o: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_ otice&district=ludhiana JMIC Ludhiana

Criminal Courts, ludhiana

Date: 21-12-2022 Ludhiana next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana CNR NO: PBLD03-036207-2019

Kotak Mahindra Bank Ltd Surender Singh Publication Issued To: Surender Singh Address- S/o Not Known R/o 103 Behlaba Meham Rohtak 124112 Vhereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named ccused/accused persons can't be served the ordinary way of service. Hence this rocedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 21-12-2022. at 10:00 a.m. or within 30 days from the ate of publication of this proclamation. ake notice that, in case of default on your art to appear as directed above the above

to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_ notice&district=ludhiana JMIC Ludhiana

Criminal Courts, ludhiana

aid case will be heard and determined as

per law, in your absence, for details logon

n The Court Of Ms Divya Sharma JMIC Date: 20-12-2022 next date, purpose of case, orders and judgments s well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana

otak Mahindra Bank Ltd

CNR NO: PBLD03-039314-2019

Surmeet kashmeer kour @ gurmeet kaur Publication issued to: Gurmeet kashmeer kour @ gurmeet kaur address- r/lo shastri agar bhilai th ward 18 vill kotrabhatha lurg chhattisgarh 490002 thereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named ccused/accused persons can't be served the ordinary way of service. Hence this roclamation under 82 of code of criminal rocedure is hereby issued against you ith a direction that you should appear ersonally before this court on 20-12-2022 t 10:00 a.m. or within 30 days from the ate of publication of this proclamation. ake notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above

o: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_ otice&district=ludhiana JMIC Ludhiana

Criminal Courts, ludhiana n The Court Of Ms Divya Sharma JMIC Date: 20-12-2022 next date, purpose of case, orders and judgments

said case will be heard and determined as

per law, in your absence, for details logon

as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana CNR NO: PBLD03-039304-2019 Kotak Mahindra Bank Ltd Akhlesh Kumar @ Akhilesh Kumar Publication Issued To: Akhlesh Kumar Akhilesh Kumar Address- R/o

alempur Jasrana Firozabad Uttar

Thereas it has proved to the satisfaction f this court that you, the above named ccused/accused persons can't be served the ordinary way of service. Hence this roclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear rsonally before this court on 20-12-2022 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence, for details logon

📵 पूर्वोत्तर रेलवे खुली ई-निविदा सूचना संख्या: NER-BSB0SnT-OT-26-2022

to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_ notice&district=ludhiana JMIC Ludhiana

मंडल रेल प्रबन्धक/सिंग. एवं दूरसंचार / पूर्वोत्तर रेलवे / वाराणसी कृते एवं भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्यों के लिए "खुली-ई" निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा सूचना सं. एवं कार्य का नाम : NER-BSB0SnT-OT-26-2022, कार्य का नाम वाराणसी डिवीजन में सीसेइ/सिग्नल/पूर्व/ गोरखपर के उनीला-पनियाहवा और लक्ष्मीगंज-तरयासुजान सेक्शन में और सीसेइ/सिग्नल/ सिवान के सेक्शन में सिग्नलिंग एसेटस की पेंटिंग और अन्य विविध कार्य। अनुमानित लागत क. 1595293.14, बयाना की राशि : क. 31900.00, निविदा प्रपत्र की कीमत : रू. 00.00, कार्य पूर्ण करने की तिथि: 04 माह, निविदा बंद होने की अंतिम तिथि

एवं समय: 12.12.2022 up to 15.00 बजे ई-निविदा दिनांक 12.12.2022 को 15:00 बजे तक आन लाईन जमा किया जा सकेगा। 2. पूर्ण विवरण की जानकारी प्राप्त करने एवं निविदा की प्रस्तृति करने के लिए भारतीय रेलवे की वेबसाईट i.e. <u>www.ireps.gov.in</u> देखें |

मंडल रेल प्रबन्धक/सिग. एवं दूर संचार/वाराणसी मुजाघि/सिगनल - 74

यात्री सुविधा सम्बन्धित शिकायत हेतु मोबाइल नं. 09794845955 पर SMS करें।

गाढ़ियों की छतों व पायदान पर कदापि यात्रा न करें।

www.readwhere.com

माग सूचना

योग करेगी :				
ऋण खाता संख्या	दायित्वधारक(कों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक	एनपीए तिथि		
GGGI	प्रतिनिधि(यों) के नाम			
20922590	1. श्रीमती शिखा शर्मा पत्नी श्री रौनक शर्मा, 2. श्री रौनक शर्मा पुत्र	03.10.2022		
Restructured	श्री ऋषि पाल शर्मा, 3. श्री ऋषि पाल शर्मा पुत्र स्व. हेत राम शर्मा,	मांग सूचना के		
to Loan A/c	4. श्री संजीव कुमार पुत्र स्व. हेत रात शर्मा, सभी यहां के निवासी :	अनुसार बकाया		
No.	3161, द्वितीय तल, हकीम बाका हौज काजी, चावड़ी बाजार,	રાશિ રાશિ		
CFLA03860	दिल्ली—110006, यहां पर भी : मकान सं. 3161, द्वितीय तल, पाठक	3,761		
00011077477	केदार नाथ, बल्लीमारन, दिल्ली, यहां पर भी : 3515, गली हकीम	रू. 3,92,50,807/ <u>-</u>		
and GECL	बाका, हौज काजी, चावड़ी बाजार, उत्तरी दिल्ली—110006, 5. मैसर्स	६. ३,५२,३७,८७७/- दिनांकित		
oan A/c No.	बाथ लाउंज, अपनी स्वामिनी श्रीमती शिखा शर्मा के माध्यम से, 3228,	12.10.2022		
CFLA03590 00010891135	गली पीपल महादेव, हौज काजी, उत्तरी दिल्ली—110006, यहां पर भी	,0,		
0010091133	: भतल दकान सं ३४९३ मख्य मार्ग हौज काजी चावडी बाजार			

|प्रतिभूत परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों के विवरण : संपत्ति एमपीएल सं. 3081 (नई), 1572 (पुरानी)

१२थत ह ।जसक श्री संजीव शर्मा	
8617287 (Restructure d Loan Account No. TCFLA0386	1. [%] सिंह पुर, 24,

प्रदेश—201301, 5. मैसर्स न्यू जनरेशन एंटरप्राइजेज, अपने ₹. 2,44,82,039 / -सेक्टर–62, बी ब्लॉक मार्किट, एयरटेल कार्यालय, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301

प्रतिभृत परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों के विवरण : 24 अंकनवाली भूमि के समस्त वह भूखंड जिनका क्षेत्राधिमापन 219.

प्रतिभूत परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों के विवरण : स्टेट कॉलोनी जो टी–ब्लॉक, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059 के रूप में विदित

1. स्व. नानक सिंह के विधिक उत्तराधिकारी, 2. श्री कुलद

दिनांकित 15.11.2022

से उक्त सूचनाओं की प्राप्ति के उपाय कर रहे हैं। उपर्युक्त ऋणधारकों को एतदुद्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के

टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड